

सक्रिय टॉप 10 अपराधी अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री जगत नरायण सिंह के निकट मार्गदर्शन में संदिग्ध व्यक्तियों वाहनो की चेकिंग करता हुआ क्षेत्र मे मामूर था कि सूचना मिली की एक संदिग्ध व्यक्ति बहुरीपार पुलिया पर खडा है सूचना पर हम पुलिस वाले जैसे ही बहुरीपार पुलिया के पास पहुचे कि हम पुलिस वालो को देखकर एक व्यक्ति पुलिया से कूदकर नहर वाई पटरी पर पूरव दिशा मे भागने का प्रयास किया कि हम पुलिस वालो ने उस व्यक्ति को 10-15 कदम जाते जाते एक बारगी की दबिश देकर हिकमत अमली से घेरघार कर समय करीब 19.20 बजे बजे पकड लिए । पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पुछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम इन्द्रजीत यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी देवनाथपुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर बताया जो थाना स्थानीय पर चयनीत सक्रिय टॉप 10 अपराधी है । उसकी जामा तलाशी से पहने हुए लोअर के उपर कमर में बाँधे हुए गमछे की फेट मे बाए तरफ खोसा हुआ एक तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुश 315 बोर बरामद हुआ । जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताते हुए बाजाफता बाकायदा समय करीब 17.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया दौरान गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया ।

**पंजीकृत किये गये अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0 667/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम इन्द्रजीत यादव पुत्र रामचन्द्र यादव उपरोक्त नाम पता अभियुक्तगण-

1. इन्द्रजीत यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी देवनाथपुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

**गिरफ्तारी का समय व स्थान-**

दिनांक 19.10.2020 समय 17.20 बजे गिरफ्तारी का स्थान – बहुरीपार पुलिया 16 किमी पश्चिम

**बरामदगी-**

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुश 315 बोर

**गिरफ्तारी में शामिल टीम-**

1. उ0नि0 अभय पाण्डेय
2. आरक्षी पिन्टू प्रसाद
3. आरक्षी संजय यादव
4. आरक्षी विकाश यादव
5. आरक्षी ओम प्रकाश सिंह